

### कार्यालय ज्ञाप

समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त विभिन्न जन शिकायतों/सन्दर्भों के निस्तारण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-1076/XVII-3/17-R-159/2016, दिनांक 12.07.2017 द्वारा श्री आर.के. तोमर, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2- तत्क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के "समाधान पोर्टल" हेतु विभागीय नोडल अधिकारी के पद पर नामित संयुक्त सचिव की अस्वस्थता के दृष्टिगत उक्त पोर्टल हेतु एतद्वारा श्रीमती मंजुला खर्कवाल, अनु सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

3- उक्त नामित अधिकारी समाधान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त विभिन्न जन शिकायतों/सन्दर्भों के निस्तारण के सम्बन्ध में यथासमय कार्य सम्पादन सुनिश्चित करेंगे। इस अतिरिक्त दायित्व के लिए उन्हें पृथक से कोई वेतन/भत्ता देय नहीं होगा।

( विजय कुमार ढौंडियाल )  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 363 (1)/XVII(3)/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. अनु सचिव, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि निदेशालय के 'समाधान' से भिन्न कम्प्यूटर आपरेटर को उक्तानुसार नामित नोडल अधिकारी के दिशा-निर्देशन में पूर्ववत प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्देशित कर दें।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( जी.एस. भाकुनी )  
उप सचिव।